



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 1981/माघ 20, 1902
No. 45] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 1981/MAGHA 20, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में भी प्रयोग हो सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1981

सा० का० नि० 54 (अ) —केन्द्रीय सरकार, महापत्तन व्यापि अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में नव मंगलौर पत्तन के व्यापि बोर्ड में, निम्नलिखित सागणी के स्तम्भ (1) में वर्णित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उक्त सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले, उक्त सागणी के स्तम्भ (2) में वर्णित व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है।

सारणी

वे हित जिनका प्रतिनिधित्व किया जाना है	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2
पत्तन में कार्यरत श्रमिक	2
जल परिवहन विभाग	1
सीमाशुल्क विभाग	1
कर्नाटक सरकार	1
भारतीय रेल विभाग	1
नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1
कुल	7

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(PORTS WING)
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 9th February, 1981

G.S.R. 54(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of New Mangalore.

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
The Mercantile Marine Department	1
The Customs Department	1
The Government of Karnataka	1
The Indian Railways	1
The Ministry of Shipping and Transport	1
Total	7

2 यह अधिसूचना पहली अप्रैल 1981 से लागू होगी।

[फा० सं० पी डब्ल्यू/पी टी बी-62/80]

2. This notification shall come into force on the 1st April, 1981.

[F. No. PW/PTB-62/80]

सा० का० नि० 55 (अ)।—केन्द्रीय सरकार, महा पत्तन अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के उपबन्धों के अनुसरण में नव जेम्सपूर पत्तन के न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित मारणी के क्रमशः स्तम्भ (2) और (3) में तत्संबन्धी प्रविष्टियों में दक्षिण प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में वर्णित व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है :

परन्तु सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उक्त सारणी की क्रम संख्या 5, 6 और 7 में से प्रत्येक के सामने वर्णित निकाय की क्षमा में, ऐसे प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

सारणी

क्रम सं०	निकायों का नाम	हित	निर्वाचित किए जाने वाले न्यासियों की सं०
1	2	3	4
1.	इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन	पोत स्वामी	1
2.	कनारा चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज	पोत वर्गिक	1
3.	क्लीयरिंग और फारवर्डिंग एजेंट्स	अन्य हित	1
4.	कनारा नेविलिंग वेसलज ओनर्स एसोसिएशन	पाल जहाजों के मालिक	1
5.	काफी बोर्ड	अन्य हित	1
6.	भारतीय तेल निगम लि०	अन्य हित	1
7.	कुदरेमुख आयरन-ओर कंपनी लि०	अन्य हित	1
		कुल	7

2 केन्द्रीय सरकार, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में, 10 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि की ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर न्यासियों का निर्वाचन किया जाएगा।

3 यह अधिसूचना पहली अप्रैल, 1981 से लागू होगी।

[फा० सं० पी डब्ल्यू/पी टी बी-62/80]
बी० बी० महाजन, संयुक्त सचिव

G.S.R. 55(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bodies, to represent each of the interests, shown respectively in the corresponding entries in columns (2) and (3) of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of New Mangalore:

Provided that in the case of the body mentioned against each of the serial numbers 5, 6 and 7 of the said Table, being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by each such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Serial Number	Name of bodies	Interests	Number of persons to be elected as Trustees
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	The Indian National Ship-owners Association	Shipowners	1
2.	Kanara Chamber of Commerce and Industry.	Shippers	1
3.	Clearing and Forwarding Agents.	Other Interests	1
4.	Kanara Sailing Vessel Owners' Association	Owners of Sailing Vessels	1
5.	Coffee Board	Other Interests	1
6.	Indian Oil Corporation Limited	Other Interests	1
7.	Kudremukh Iron Ore Company Limited.	Other Interests	1
		Total :	7

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 10th March, 1981 as the period within which the election of Trustees shall be held.

3. This notification shall come into force on the 1st April, 1981.

[F. No. PW/PTB-62/80]
B. B. MAHAJAN, Jt. Secy.